

प्रेस नोट

कोविड-19 पर आधारित ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वितीय अन्तिम चरण की परीक्षा का आयोजन 23 जून को

भिवानी, 22 जून, 2020 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी (कोविड-19) से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वितीय अन्तिम चरण का आयोजन 23 जून, 2020 को करवाया जा रहा है।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह एवं सचिव श्री राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने संयुक्त रूप से आज यहाँ जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) पर आधारित इस ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून 2020 को करवाया गया था। इस ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के परिणाम अर्थात् तीनों श्रेणियों में टॉप स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए किया गया है। जिसमें कक्षा छठी से आठवीं तक 306, कक्षा नौवीं से दसवीं तक 300 एवं ग्यारहवीं से बारहवीं तक 330 प्रतिभागी चयनित हुए, जिनके द्वितीय अन्तिम चरण की परीक्षा का आयोजन 23 जून 2020 को सांय 3:00 बजे से 4:00 बजे तक करवाया जा रहा है। चयनित हुए प्रतिभागियों की सूची बोर्ड वेबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

उन्होंने आगे बताया कि द्वितीय अन्तिम चरण की परीक्षा निबंधात्मक आधार पर होगी, इस परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से 07 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से कोई 05 प्रश्न करने होंगे।

प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी कम्प्यूटर/लैपटॉप पर उत्तर टाईप कर सकते हैं, मोबाइल पर भी प्रश्नों के उत्तर टाईप करके उत्तर-पुस्तिका के रूप में दिए गए लिंक के माध्यम से उत्तर अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रतिभागी इन विकल्पों का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिभागी अपना उत्तर नोट बुक/रजिस्टर में लिखकर निर्धारित समय में उसका फोटो खींचकर साय: 4:00 बजे तक हर अवस्था में बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक पर अपलोड करना होगा। प्रतिभागियों को अपना फोटो भी अपलोड करना होगा। इस द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बोर्ड की ओर से प्रमाण-पत्र दिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उत्तर-पुस्तिका पर अपना पंजीकरण संख्या, नाम एवं कक्षा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का विवरण न दर्शाए अन्यथा ऐसा पाए जाने पर प्रतिभागी की उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। प्रतिभागी अपने उत्तर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख सकता है।